



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2007 /फाल्गुन 28, 1928

No. 289]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2007/PHALGUNA 28, 1928

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2007

का.आ. 395(अ).—यतः मैसर्स डी एल एफ लिमिटेड ने हरियाणा राज्य में ग्राम सीलोखेड़ा, तहसील व जिला गुड़गांव में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्वारा अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अंतर्गत उक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित एवं प्रचालित करने के लिए दिनांक 19 जून, 2006 को अनुमोदन पत्र प्रदान करने के बाद विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य के ग्राम सीलोखेड़ा, तहसील व जिला गुड़गांव में 12.06 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 2070(अ) में विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित कर दिया है;

और यतः मैसर्स डी एल एफ लिमिटेड ने 12.06 हेक्टेयर के उक्त अधिसूचित क्षेत्र में 2.91 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः उक्त विशेष आर्थिक जोन के क्षेत्र को 12.06 हेक्टेयर से बढ़ा कर 14.97 हेक्टेयर करने के उक्त प्रस्ताव को दिनांक 2 फरवरी, 2007 को अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है;

अतः, अब, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा हरियाणा राज्य में ग्राम सीलोखेड़ा, तहसील व जिला गुड़गांव स्थित 2.91 हेक्टेयर के निम्नलिखित अतिरिक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल करने हेतु अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं; अर्थात् :-

तालिका			
क्र.सं.	रेक्ट सं.	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	13	(1) 6/1	0.2024
		(2) 6/2	0.2024
		(3) 15	0.4049
		(4) 16/1	0.0430
		(5) 16/2	0.3619
		(6) 25 न्यूनतम	0.1670
2.	14	(1) 20/3	0.3214
		(2) 21/1	0.3542
		(3) 26	0.0532
3.	27	(1) 1/1	0.3947
		(2) 10	0.4049
कुल			2.91

[फा. सं. एफ. 2/137/2005-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2007

S.O. 395(E).—Whereas M/s. DLF Limited had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereinafter referred to as the Act, to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at village Silokhera, Tehsil and District Gurgaon in the State of Haryana;

And whereas the Central Government, after the grant of the letter of approval under Sub-section (10) of Section 3 of the said Act on 19th June, 2006, for the development and the operation of the said sector Specific Economic Zone, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Act and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified the total area of 12.06 hectares at village Silokhera, Tehsil and District Gurgaon in the State of Haryana as Special Economic Zone in the notification of the Ministry of Commerce and Industry, number S. O. 2070(E), dated 6th December, 2006;

And whereas M/s. DLF Limited has proposed an additional area of 2.91 hectares to be included in the said notified area of 12.06 hectares as a part of that Special Economic Zone;

And whereas the said proposal for increasing the area of that Special Economic Zone from 12.06 hectares of land to 14.97 hectares has been approved by the Board of Approval on 2nd February, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to Sub-section (1) of Section 4 of the Act and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 2.91 hectares at village Silokhera, Tehsil and District Gurgaon in the State of Haryana, comprising of the Survey numbers and the area given in the Table below, to be included as a part of that Special Economic Zone, namely:—

TABLE

Sl. No.	Rect. No.	Survey No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	13	(1) 6/1	0.2024
		(2) 6/2	0.2024
		(3) 15	0.4049
		(4) 16/1	0.0430
		(5) 16/2	0.3619
		(6) 25 min	0.1670

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	14	(1) 20/3	0.3214
		(2) 21/1	0.3542
		(3) 26	0.0532
3.	27	(1) 1/1	0.3947
		(2) 10	0.4049
TOTAL			2.91

[F. No. F. 2/137/2005-SEZ]

ANIL MUKIM, Jr. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2007

का.आ. 396(अ).—यतः मैसर्स डी एल एफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चेन्नै) ने राज्य में ग्राम मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम्, श्रीपेरुम्बदूर तालुक, जिला कांचीपुरम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत उक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास एवं प्रचालन हेतु दिनांक 22 जून, 2006 को अनुमोदन प्रदान करने के बाद तमिलनाडु राज्य के ग्राम मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम्, श्रीपेरुम्बदूर तालुक, जिला कांचीपुरम में 13.2923 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 16 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1978(अ) में विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और यतः मैसर्स डी एल एफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चेन्नै) ने तमिलनाडु राज्य के ग्राम मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम् 13.2923 हेक्टेयर के उक्त अधिसूचित क्षेत्र में 3.4384 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, उक्त विशेष आर्थिक जोन के क्षेत्र में वृद्धि के लिए उक्त प्रस्ताव दिनांक 2 फरवरी, 2007 को अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है;

अतः, अब, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा तमिलनाडु राज्य के ग्राम मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम्, श्रीपेरुम्बदूर तालुक, जिला कांचीपुरम में 3.4384 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल करने हेतु अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं: अर्थात्:—

तालिका			
क्र.सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मनपक्कम	(1) 58/1	1.2435
		(2) 58/2	0.1889
		(3) 58/3	0.249
2.	मुगलीवक्कम	(1) 58/7 बी2	0.02
		(2) 58/8	0.07
		(3) 58/9	0.072
		(4) 58/10	0.081
		(5) 59/1	0.487
		(6) 59/3 बी	0.06
		(7) 56/2 सी	0.10
		(8) 56/2 ई	0.028
		(9) 56/2 एफ	0.028
		(10) 56/2 जी	0.049
		(11) 56/3	0.021
		(12) 56/4	0.032
		(13) 57/6	0.012
		(14) 57/7 बी	0.089
		(15) 57/10 बी	0.089
		(16) 57/13	0.04
		(17) 57/14	0.074
		(18) 57/15 ए	0.313
		(19) 57/15 बी	0.089
		(20) 59/3 ए2बी	0.003
	कुल		3.4384

[फा. सं. एफ. 2/124/2005-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2007

S.O. 396(E).—Whereas M/s. DLF Info City Developers (Chennai) Limited had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereinafter referred to as the Act, to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Manapakkam and Muglivakkam villages, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the Central Government, after the grant of letter of approval under Sub-section (10) of Section 3 of the Act for the development and operation of the said sector specific Special Economic Zone, on 22nd June, 2006, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified the total area of 13.2923 hectares at Manapakkam and Muglivakkam villages,

Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu as Special Economic Zone in the notification of the Ministry of Commerce and Industry number S.O. 1978(E) dated 16th November, 2006;

And whereas M/s. DLF Info City Developers (Chennai) Limited has proposed including of an additional area of 3.4384 hectares at Manapakkam and Muglivakkam villages, in the said notified area of 13.2923 hectares as a part of that Special Economic Zone;

And whereas the said proposal for increasing the area of the said Special Economic Zone has been approved by the Board of Approval on 2nd February, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to Sub-section (1) of Section 4 of the Act and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 3.4384 hectares at Manapakkam and Muglivakkam villages, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu, comprising of the Survey numbers and the area given in the Table below, to be included as a part of that Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Manapakkam	(1) 58/1	1.2435
		(2) 58/2	0.1889
		(3) 58/3	0.249
2.	Muglivakkam	(1) 58/7B2	0.02
		(2) 58/8	0.07
		(3) 58/9	0.072
		(4) 58/10	0.081
		(5) 59/1	0.487
		(6) 59/3B	0.06
		(7) 56/2C	0.10
		(8) 56/2E	0.028
		(9) 56/2F	0.028
		(10) 56/2G	0.049
		(11) 56/3	0.021
		(12) 56/4	0.032
		(13) 57/6	0.012
		(14) 57/7B	0.089
		(15) 57/10B	0.089
		(16) 57/13	0.04
		(17) 57/14	0.074
		(18) 57/15A	0.313
		(19) 57/15B	0.089
		(20) 59/3A2B	0.003
	TOTAL		3.4384

[F.No. F.2/124/2005-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.